



**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक:- 08.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.11.2021 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों की चेकिंग / गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में थानाध्यक्ष खरेला श्री दिनेश तिवारी द्वारा गठित उ0नि0 उमेश कुमार मय हमराही फोर्स के नेतृत्व में टीम ने थानाक्षेत्र अन्तर्गत मरही माता मन्दिर के पास से अभियुक्त कल्लू सिंह उर्फ बउवा पुत्र शेखर सिंह को 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया, बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 123/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया व आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कर अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### **गिरफ्तारी अभियुक्त-**

कल्लू सिंह उर्फ बउवा पुत्र शेखर सिंह निवासी मु0 सादराय ।। कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा उम्र करीब 24 वर्ष।



### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

1. उ0नि0 उमेश कुमार
2. का0 आलोक सिंह
3. का0 शिवकुमार मौर्य



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 08.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.11.2021 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेशचन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में वांछित / वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार द्वारा गठित उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार शुक्ला मय हमराही कर्मचारी के नेतृत्व में मुखबिर खास की सूचना पर अभियान में शामिल होकर थानाक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पवा से मु.अ.सं.94/2019 धारा 8/20 **NDPS ACT** से सम्बन्धित एक नफर वारण्टी अभियुक्त हरप्रसाद पुत्र मलखाना राजपूत उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार किया बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये अभि.को मान0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार शुक्ला
2. का.सुधीर कुमार

### **गिरफ्तार अभियुक्त -**

हरप्रसाद पुत्र मलखाना राजपूत उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम पवा थाना श्रीनगर जिला महोबा ।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 08.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



**थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये**

**03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल सहित अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद किये ।**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्र में हो रही चोरी व लूट की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के तहत आज दिनांक 08.11.2021 को थाना प्रभारी व0उ0नि0 श्री आनन्द कुमार द्वारा गठित टीम में उ0नि0 सुमित नारायण मय उ0नि0 राहुल पाण्डेय, उ0नि0 केशवराम मय हमराह कां0 मनोज कुमार पाल, कां0 राजीव कुमार, कां0 अमन शर्मा, कां0 राहुल कुमार, कां0 रामेन्द्र कुमार, कां0 शिवकुमार के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरामय व संदिग्ध वाहन/ व्यक्ति चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1- अनिल उर्फ आदित्य सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम मुड़हरा थाना प्रकाश बम्हौरी जिला छतरपुर म0प्र0 2- राहुल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम मुड़हरा थाना प्रकाश बम्हौरी जिला छतरपुर म0प्र0 3- विक्रम सिंह पुत्र राजू सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जिला महोबा को गिरफ्तार किया, जिस पर गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से हीरो पैशन प्रो रंग काला चेचिस नंबर **MBLHA10EWBGA04136** का थाना हाजा के मु.अ.सं. 467/21 धारा 379 भादवि व वाहन इंजन नंबर **HA10ETEHTMO2885** का सम्बन्ध थाना हाजा के मु.अ.सं. 468/21 धारा 379 भादवि तथा मु.अ.सं. 469/21 धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम में 01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व मु.अ.सं. 470/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम में 01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व मु.अ.सं. 471/21 धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम में 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व मु.अ.सं. 472/21 धारा-411/414/420/467/468/471 भादवि से सम्बन्धित मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स चेचिस नंबर **MBLHA11AME9H00631** बरामद हुआ । जिन्हें विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 सुमित नारायण
2. उ0नि0 राहुल कुमार पाण्डेय
3. उ0नि0 केशवराम
4. कां0 मनोज कुमार पाल
5. कां0 राजीव कुमार
6. कां0 अमन शर्मा
7. कां0 राहुल कुमार
8. कां0 रामेन्द्र कुमार
9. कां0 शिवकुमार





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 08.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों के प्रति किया जागरूक ।

महिलाओं/बच्चियों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीडन के रोकथाम हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियान \*मिशन शक्ति फेज-3.0\* के तहत आज दिनांक **08.11.2021** को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर गठित एण्टी रोमियो टीम द्वारा जागरूकता अभियान के तहत रामकथा मार्ग व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं से उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा मौजूद व्यक्तियों से भी महिलाओं एवं बालिकाओं को सहयोग प्रदान करने की अपील की गयी ।

जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुये बताया गया कि आपको अगर कोई भी परेशान करता है तो उसकी शिकायत आप अपने नजदीकी थाने में स्थापित '**महिला हेल्प डेस्क**' में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारी से बिना डरे हुये अपनी बात पूरी गोपनीयता के साथ कर सकती हैं जिस पर तुरन्त कार्यवाही करते हुये आपकी समस्या का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जायेगा ।

इसके साथ ही टीमों द्वारा अन्य हेल्पलाइन नम्बरों वूमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्प लाइन-181, आपातकालीन सेवा यूपी - 112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, साइबर अपराध हेल्पलाइन- 155260 एवं महिला कानूनों के साथ-साथ सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई ।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 08.11.2021**

# महोबा पुलिस



**मीडिया सेल, महोबा**

**क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा थाना चरखारी में सुरक्षा व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में भारी पुलिसबल के साथ भ्रमण किया गया तथा यातायात नियमों के प्रति लोगों को किया गया जागरूक**

सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत यातायात प्रभारी तथा जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक तथा राहगीरों को यातायात नियमों के संबंध में पम्पलेट भी दिए गये।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **179** ई-चालान किये गये।



आज दिनांक 08.11.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र द्वारा थाना चरखारी में चेकिंग अभियान चलाया गया तथा लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया एवं जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में






**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 08.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा थाना खरेला का किया गया औचक निरीक्षण संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश.....**



आज दिनांक 08.11.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चरखारी उमेश चन्द्र द्वारा थाना खरेला का औचक निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान मेस और बैरक का निरीक्षण किया गया तथा कोविड केयर डेस्क और साथ ही महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा की गई थाना स्तर पर जो भी शिकायतें आई हैं उनको रिकॉर्ड कर कंप्यूटर में फीड किया जा रहा है और पावती दी जा रही है इसके संबंध में निर्देशित किया, थाना खरेला में क्राइम की समीक्षा की गई है

जिसमें महिला अपराध से सम्बन्धित कुछ मामलों में वांछित जो प्रीवेंटिव कार्यवाही हैं उसको बढ़ाने पर जोर देने के लिए और सीसीटीएनएस और जो रिकॉर्ड है अप टू डेट करने के लिए कहा गया ।

तत्पश्चात थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । जिसमें रजि0नं0-4 व 8 तथा फ्लॉई शीट, भूमि-विवाद रजि0, महिला उत्पीड़न रजि0, एससी/एसटी उत्पीड़न रजि0, माल रजि0 सहित आदि रजिस्ट्रों को चेक किया गया तथा माल निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक खरेला व थाना अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक:- 08.11.2021

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



Mahoba Police